



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 आश्विन 1941 (श०)

(सं० पटना 1167) पटना, वृहस्पतिवार, 17 अक्टूबर 2019

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

17 अक्टूबर 2019

सं० बी१-3-141/2019-75—23—समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54—किशनगंज, 76—सिमरी बख्तियारपुर, 109—दरौंदा, 158—नाथनगर एवं 163—बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 के अवसर पर मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र एवं वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों के प्रयोग से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली का आदेश संख्या-3/4/आई.डी./2019/एसडीआर/खण्ड-I दिनांक 12.10.2019 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
रत्नेश झा,  
संयुक्त सचिव।

## भारत निर्वाचन आयोग

## अधिसूचना

12 अक्टूबर 2019

सं. 3/4/आई०डी०/2019/एसडीआर/खण्ड-1—1. यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 61 में यह उपबंधित है कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण करने की दृष्टि से, ताकि उक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन वास्तविक निर्वाचकों का उनके मत देने के अधिकार को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके, मतदान के समय निर्वाचकों की पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में निर्वाचकों के लिए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के उपयोग हेतु नियमों के द्वारा उपबंध किए जा सकते हैं, तथा

2. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 का नियम 28 निर्वाचन आयोग को, इस दृष्टि से कि निर्वाचकों के प्रतिरूपण का निवारण हो सके तथा मतदान के समय उनकी पहचान को सरल बनाया जा सके, निर्वाचकों को राज्य की लागत पर फोटोयुक्त निर्वाचक फोटो-पहचान पत्र जारी करने के लिए निदेश देने की शक्ति प्रदान करता है, तथा

3. यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 49 ज(3) और 49 ट(2) (ख) में यह उपबंधित है कि जहां किसी निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचकों को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के उक्त उपबंधों के अधीन निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिए गए हैं, वहां निर्वाचकों को मतदान केन्द्र में अपना निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र दिखाना होगा तथा उनकी ओर से उन निर्वाचक फोटो पहचान पत्रों को नहीं दिखए जाने या दिखाने में असमर्थ होने पर उन्हें मत डालने की अनुमति देने से इन्कार किया जा सकता है, तथा

4. यतः, उक्त अधिनियम और नियमों के उपर्युक्त उपबंधों को मिलाकर एवं सामंजस्यपूर्ण ढंग से उनके अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि मत देने का अधिकार निर्वाचक नामावली में नाम के होने से ही होता है, यह निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य की लागत पर, मतदान के समय उनकी पहचान सुनिश्चित करने के साधन के रूप में प्रदान करवाए गए निर्वाचक फोटो पहचान पत्र के प्रयोग पर भी निर्भर करता है, तथा दोनों का एक साथ प्रयोग करना होता है, तथा

5. यतः, निर्वाचकों का रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के नियम 28 के अधीन निर्वाचन आयोग ने एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सभी निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (ईपीआईसी) जारी करने का निदेश देते हुए 28 अगस्त, 1993 को एक आदेश जारी किया है; तथा

6. यतः, सभी राज्यों में बड़ी संख्या में निर्वाचकों को निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं; तथा

7. अतः, अब, सभी संबंध कारकों तथा विधिक एवं तथ्यात्मक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा, यह निदेश देता है कि 16 राज्यों की 46 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों (संलग्नक-1 के अनुसार) एवं बिहार राज्य के 23-समस्तीपुर (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं महाराष्ट्र राज्य के 45-सतारा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चालू उप निर्वाचनों, जो कि 23.09.2019 एवं 27.09.2019 को अधिसूचित किये गए हैं, सभी निर्वाचक जिन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं, मतदान स्थल पर अपना मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा:-

- (i) पासपोर्ट,
- (ii) ड्राइविंग लाइसेन्स,
- (iii) राज्य/केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र,
- (iv) बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक,
- (v) पैन कार्ड,
- (vi) एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड,
- (vii) मनरेगा जॉब कार्ड,
- (viii) श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
- (ix) फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज,
- (x) सांसदों, विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
- (xi) आधार कार्ड

8. एपिक के संबंध में, लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजरअंदाज कर देना चाहिए बशर्ते निर्वाचक की पहचान ईपीआईसी से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य सभा निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किए जाएंगे बशर्ते उस निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है उस मतदान केंद्र से संबंधित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। यदि फोटोग्राफ इत्यादि के बेमेल होने के कारण निर्वाचक की पहचान सुनिश्चित करना संभव न हो तब निर्वाचक को उपर्युक्त पैरा 8 में वर्णित किसी एक वैकल्पिक फोटो दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

9. उक्त पैरा 7 में किसी बात के होते हुए भी, प्रवासी निर्वाचकों को जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, मतदान केन्द्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट (तथा कोई अन्य पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा।

आदेश से,  
एन०टी० भूटिया,  
सचिव।

संलग्नक-।

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
1.	अरूणाचल प्रदेश	56-खोन्सा (पश्चिम) (अ.ज.जा.)
2.	असम	1-रतबाडी (अ.जा.)
3.	असम	44-जनिया
4.	असम	74-रंगापारा
5.	असम	106-सोनारी
6.	बिहार	54-किशनगंज
7.	बिहार	76-सिमरी बख्तियारपुर
8.	बिहार	109-दरौदा
9.	बिहार	158-नाथनगर
10.	बिहार	163-बेलहर
11.	छत्तीसगढ़	87-चित्रकोट (अ.ज.जा.)
12.	गुजरात	8-थराद
13.	गुजरात	20-खेरालु
14.	गुजरात	50-अमराईवाडी
15.	गुजरात	122-लुणावाडा
16.	हिमाचल प्रदेश	18-धर्मशाला
17.	हिमाचल प्रदेश	55-पच्छाद (अ.जा.)
18.	मध्य प्रदेश	193-झाबुआ (अ.ज.जा.)
19.	मेघालय	26-शेल्ला (अ.ज.जा.)
20.	उड़ीसा	2-बिजेपुर
21.	पुडुचेरी	10-कामराज नगर
22.	पंजाब	29-फगवाडा (अ.जा.)
23.	पंजाब	39-मुकेरियाँ

क्रम सं.	राज्य	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम एवं संख्या
24.	पंजाब	68-दाखा
25.	पंजाब	79-जलालाबाद
26.	राजस्थान	28-मंडावा
27.	राजस्थान	110-खीवसर
28.	सिक्किम	10-पोकलोक-कामरंग
29.	सिक्किम	24-मारतम-रुमटेक (बी.एल)
30.	सिक्किम	27-गंगटोक (बी.एल)
31.	तमिलनाडु	75-विक्रावांडी
32.	तमिलनाडु	227-नानगुनेरी
33.	तेलंगाना	89-हुजूरनगर
34.	उत्तर प्रदेश	7-गंगोह
35.	उत्तर प्रदेश	37-रामपुर
36.	उत्तर प्रदेश	77-इगलास (अ.जा.)
37.	उत्तर प्रदेश	175-लखनऊ कैन्टोमैन्ट
38.	उत्तर प्रदेश	212-गोविन्दनगर
39.	उत्तर प्रदेश	237-मानिकपुर
40.	उत्तर प्रदेश	248-प्रतापगढ़
41.	उत्तर प्रदेश	269-जैदपुर (अ.जा.)
42.	उत्तर प्रदेश	280-जलालपुर
43.	उत्तर प्रदेश	282-बलहा (अ.जा.)
44.	उत्तर प्रदेश	354-घोसी
45.	गुजरात	16-राधनपुर
46.	गुजरात	32-बायड

एन.टी.भूटिया,  
सचिव।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

## Notification

12<sup>th</sup> October 2019

No. 3/4/ID/2019/SDR/VOL.I—1. Whereas, Section 61 of the Representation of the People Act, 1951 provides that with a view to preventing impersonation of electors, so as to make the right of genuine electors to vote under section 62 of that Act more effective, provisions may be made by rules under that Act for use of Electors Photo Identity Card for electors as the means of establishing their identity at the time of polling; and

2. Whereas, Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, empowers the Election Commission to direct, with a view to preventing impersonation of electors and facilitating their identification at the time of poll, the issue of Electors Photo Identity Card to electors bearing their photographs at State cost; and

3. Whereas, Rules 49H(3) and 49K (2) (b) of the Conduct of Elections Rules, 1961, stipulate that where the electors of a constituency have been supplied with Electors Photo Identity Card under the said provisions of Rule 28 of the Registration of Electors Rules, 1960, the electors shall produce their Electors Photo Identity Card at the polling station and failure or refusal on their part to produce those Electors Photo Identity Card may result in the denial of permission to vote; and

4. Whereas, a combined and harmonious reading of the aforesaid provisions of the said Act and the Rules, makes it clear that although the right to vote arises by the existence of the name in the electoral roll, it is also dependent upon the use of the Electors Photo Identity Card, where provided by the Election Commission at State cost, as the means of establishing their identity at the time of polling and that both are to be used together; and

5. Whereas, the Election Commission made an Order on the 28<sup>th</sup> August, 1993, directing the issue of Electors Photo Identity Card (EPIC) to all electors, according to a time bound programme; and

6. Whereas, Electors Photo Identity Card have been issued to a substantially large number of electors in all the States; and

7. Now, therefore, after taking into account all relevant factors and the legal and factual position, the Election Commission hereby directs that for current bye elections from **46 Assembly Constituencies(as per Annexure-I) of 16 States and the bye-elections from 23-Samastipur (SC) Parliamentary Constituency in the State of Bihar & 45-Satara Parliamentary Constituency in the State of Maharashtra**, which have been notified on **23-09-2019& 27-09-2019**, all electors who have been issued EPIC shall produce the EPIC for their identification at the polling station before casting their votes. Those electors who are not able to produce the EPIC shall produce one of the following alternative photo identity documents for establishing their identity: -

- (i) Passport;
- (ii) Driving License;
- (iii) Service Identity Cards with photograph issued to employees by Central/State Govt. PSUs/Public Limited Companies;
- (iv) Passbooks with photograph issued by Bank/Post Office;
- (v) PAN Card;
- (vi) Smart Card issued by RGI under NPR;
- (vii) MNREGA Job Card;
- (viii) Health Insurance Smart Card issued under the scheme of Ministry of Labour;
- (ix) Pension document with photograph,
- (x) Official identity cards issued to MPs/MLAs/MLCs
- (xi) Aadhaar Card.

8. In the case of EPIC, clerical errors, spelling mistakes, etc. should be ignored provided the identity of the elector can be established by the EPIC. If an elector produces an Electors Photo Identity Card, which has been issued by the Electoral Registration Officer of another Assembly Constituency, such EPICs shall also be accepted for identification provided the name of that elector finds place in the electoral roll pertaining to the polling station where the elector has turned up for voting. If it is not possible to establish the identity of the elector on account of mismatch of

photograph, etc. the elector shall have to produce one of the alternative photo documents mentioned in Para 7 above.

9. Notwithstanding anything in Para 7 above, overseas electors who are registered in the electoral rolls under Section 20A of the Representation of the People Act, 1950, based on the particulars in their Passport, shall be identified on the basis of their original passport only (and no other identity document) in the polling station.

**By Order,  
N.T.BHUTIA,  
Secretary.**

**Annexure-I**

Sl. No.	Name of State	Number and Name of Assembly Constituency	Sl. No.	Name of State	Number and Name of Assembly Constituency
1.	Arunachal Pradesh	56-Khonsa (West)(ST)	22.	Punjab	29-Phagwara (SC)
2.	Assam	1-Ratabari (SC)	23.	Punjab	39-Mukerian
3.	Assam	44-Jania	24.	Punjab	68 – Dakha
4.	Assam	74-Rangapara	25.	Punjab	79 – Jalalabad
5.	Assam	106-Sonari	26.	Rajasthan	28-Mandawa
6.	Bihar	54-Kishanganj	27.	Rajasthan	110-Khinwsar
7.	Bihar	76-Simri Bakhtiarpur	28.	Sikkim	10 – Poklok-Kamrang
8.	Bihar	109-Daraunda	29.	Sikkim	24 – Martam-Rumtek (BL)
9.	Bihar	158-Nathnagar	30.	Sikkim	27 – Gangtok (BL)
10.	Bihar	163-Belhar	31.	Tamil Nadu	75- Vikravandi
11.	Chhattisgarh	87-Chitrakot (ST)	32.	Tamil Nadu	227-Nanguneri
12.	Gujarat	8-Tharad	33.	Telangana	89-Huzurnagar
13.	Gujarat	20-Kheralu	34.	Uttar Pradesh	7-Gangoh
14.	Gujarat	50-Amraiwadi	35.	Uttar Pradesh	37-Rampur
15.	Gujarat	122-Lunawada	36.	Uttar Pradesh	77-Iglas (SC)
16.	Himachal Pradesh	18-Dharamshala	37.	Uttar Pradesh	175 –Lucknow Cantt.
17.	Himachal Pradesh	55-Pachhad (SC)	38.	Uttar Pradesh	212-Govindnagar
18.	Madhya Pradesh	193 – Jhabua (ST)	39.	Uttar Pradesh	237-Manikpur
19.	Meghalaya	26-Shella (ST)	40.	Uttar Pradesh	248-Pratapgarh
20.	Odisha	2- Bijepur	41.	Uttar Pradesh	269-Zaidpur (.SC)
21.	Pudducherry	10 – Kamraj Nagar	42.	Uttar Pradesh	280-Jalalpur
			43.	Uttar Pradesh	282-Balha (SC)
			44.	Uttar Pradesh	354-Ghosi
			45.	Gujarat	16-Radhanpur
			46.	Gujarat	32-Bayad

**N.T.BHUTIA,  
Secretary.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 1167-571+50-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>